



Aariv Seth

07 Sep 2020

09:33 PM

Surat

Model: Web-MyKundli

Order No: 121356001

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 07/09/2020
दिन _____: सोमवार
जन्म समय _____: 21:33:00 घंटे
इष्ट _____: 37:52:43 घटी
स्थान _____: Surat
राज्य _____: Gujarat
देश _____: India

अक्षांश _____: 21:10:00 उत्तर
रेखांश _____: 72:50:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:38:40 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 20:54:20 घंटे
वेलान्तर _____: 00:02:03 घंटे
साम्पातिक काल _____: 20:03:06 घंटे
सूर्योदय _____: 06:23:54 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:48:48 घंटे
दिनमान _____: 12:24:54 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 21:20:26 सिंह
लग्न के अंश _____: 14:44:50 मेष

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मेष - मंगल
राशि-स्वामी _____: मेष - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: भरणी - 3
नक्षत्र स्वामी _____: शुक्र
योग _____: व्याघात
करण _____: तैतिल
गण _____: मनुष्य
योनि _____: गज
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: चतुष्पाद
वर्ग _____: मृग
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: ले-लेखपाल
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: स्वर्ण - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कन्या

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1942	भाद्रपद	16
पंजाबी	संवत : 2077	भाद्रपद	23
बंगाली	सन् : 1427	भाद्रपद	22
तमिल	संवत : 2077	आवनी	22
केरल	कोल्लम : 1196	चिंगम	22
नेपाली	संवत : 2077	भाद्रपद	23
चैत्रादि	संवत : 2077	आश्विन	कृष्ण 5
कार्तिकादि	संवत : 2077	भाद्रपद	कृष्ण 5

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 5
तिथि समाप्ति काल _____ : 21:38:56
जन्म तिथि _____ : 5
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : भरणी
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 08:25:37 घंटे
जन्म योग _____ : भरणी
सूर्योदय कालीन योग _____ : ध्रुव
योग समाप्ति काल _____ : 16:36:29 घंटे
जन्म योग _____ : व्याघात
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 08:23:11 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 40:23:45
भभोग _____ : 67:35:20
भोग्य दशा काल _____ : शुक्र 8 वर्ष 0 मा 20 दि

घात चक्र


मास _____ : कार्तिक
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : रविवार
नक्षत्र _____ : मघा
योग _____ : विष्कुम्भ
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : सिंह
लग्न _____ : मेष
सूर्य _____ : कर्क
चन्द्र _____ : मेष
मंगल _____ : सिंह
बुध _____ : वृष
गुरु _____ : कन्या
शुक्र _____ : तुला
शनि _____ : मिथुन
राहु _____ : वृश्चिक

जन्म कुण्डली

लग्न कुंडली



चन्द्र कुंडली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

	मं ल चं		रा
			शु
श			सू
के गु			बु

लग्न कुंडली

	मं ल चं		
रा			
शु			श
सू			गु के
			बु

विंशोत्तरी
शुक्र 8वर्ष 0मा 20दि
शुक्र

07/09/2020

29/09/2128

शुक्र	28/09/2028
सूर्य	28/09/2034
चन्द्र	28/09/2044
मंगल	29/09/2051
राहु	28/09/2069
गुरु	28/09/2085
शनि	29/09/2104
बुध	29/09/2121
केतु	29/09/2128

योगिनी
भद्रिका 2वर्ष 0मा 5दि
उल्का

13/09/2022

13/09/2028

उल्का	13/09/2023
सिद्धा	12/11/2024
संकटा	14/03/2026
मंगला	14/05/2026
पिंगला	13/09/2026
धान्या	15/03/2027
भ्रामरी	13/11/2027
भद्रिका	13/09/2028


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मेष	14:44:50	426:20:55	भरणी	1	2	मंगल	शुक्र	शुक्र	---
सूर्य			सिंह	21:20:26	00:58:14	पूर्वाल्गुनी	3	11	सूर्य	शुक्र	गुरु	स्वराशि
चंद्र			मेष	21:17:45	11:50:14	भरणी	3	2	मंगल	शुक्र	गुरु	सम राशि
मंगल			मेष	03:57:46	00:01:59	अश्विनी	2	1	मंगल	केतु	चंद्र	मूलत्रिकोण
बुध			कन्या	08:48:12	01:34:40	उ०फाल्गुनी	4	12	बुध	सूर्य	शुक्र	उच्च राशि
गुरु	व		धनु	23:18:41	00:01:02	पूर्वाषाढा	3	20	गुरु	शुक्र	शनि	स्वराशि
शुक्र			कर्क	07:20:31	01:05:30	पुष्य	2	8	चंद्र	शनि	केतु	शत्रु राशि
शनि	व		मक	01:34:16	00:02:03	उत्तराषाढा	2	21	शनि	सूर्य	गुरु	स्वराशि
राहु	व		मिथु	01:06:07	00:04:25	मृगशिरा	3	5	बुध	मंगल	बुध	उच्च राशि
केतु	व		धनु	01:06:07	00:04:25	मूल	1	19	गुरु	केतु	शुक्र	उच्च राशि
हर्ष	व		मेष	16:20:03	00:01:06	भरणी	1	2	मंगल	शुक्र	चंद्र	---
नेप	व		कुंभ	25:31:12	00:01:39	पूर्वाभाद्रपद	2	25	शनि	गुरु	बुध	---
प्लूटो	व		धनु	28:30:55	00:00:44	उत्तराषाढा	1	21	गुरु	सूर्य	मंगल	---
दशम भाव			मक	04:30:23	--	उत्तराषाढा	--	21	शनि	सूर्य	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:08:29


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मीन 28:02:25	मेष 14:44:50
2	मेष 28:02:25	वृष 11:20:01
3	वृष 24:37:36	मिथुन 07:55:12
4	मिथुन 21:12:47	कर्क 04:30:23
5	कर्क 21:12:47	सिंह 07:55:12
6	सिंह 24:37:36	कन्या 11:20:01
7	कन्या 28:02:25	तुला 14:44:50
8	तुला 28:02:25	वृश्चिक 11:20:01
9	वृश्चिक 24:37:36	धनु 07:55:12
10	धनु 21:12:47	मकर 04:30:23
11	मकर 21:12:47	कुम्भ 07:55:12
12	कुम्भ 24:37:36	मीन 11:20:01


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मेष	14:44:50
2	वृष	14:16:56
3	मिथुन	09:30:53
4	कर्क	04:30:23
5	सिंह	02:45:56
6	कन्या	06:48:16
7	तुला	14:44:50
8	वृश्चिक	14:16:56
9	धनु	09:30:53
10	मकर	04:30:23
11	कुम्भ	02:45:56
12	मीन	06:48:16


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल
पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उभाद्रपद	रेवती	अश्विनी

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शुक्र 8 वर्ष 0 मास 20 दिन

शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष
07/09/2020	28/09/2028	28/09/2034	28/09/2044	29/09/2051
28/09/2028	28/09/2034	28/09/2044	29/09/2051	28/09/2069
00/00/0000	सूर्य 16/01/2029	चंद्र 30/07/2035	मंगल 24/02/2045	राहु 11/06/2054
00/00/0000	चंद्र 17/07/2029	मंगल 28/02/2036	राहु 15/03/2046	गुरु 04/11/2056
00/00/0000	मंगल 22/11/2029	राहु 29/08/2037	गुरु 19/02/2047	शनि 10/09/2059
00/00/0000	राहु 17/10/2030	गुरु 29/12/2038	शनि 29/03/2048	बुध 30/03/2062
07/09/2020	गुरु 05/08/2031	शनि 29/07/2040	बुध 27/03/2049	केतु 17/04/2063
गुरु 29/07/2021	शनि 17/07/2032	बुध 29/12/2041	केतु 23/08/2049	शुक्र 17/04/2066
शनि 28/09/2024	बुध 23/05/2033	केतु 30/07/2042	शुक्र 23/10/2050	सूर्य 12/03/2067
बुध 30/07/2027	केतु 28/09/2033	शुक्र 29/03/2044	सूर्य 28/02/2051	चंद्र 10/09/2068
केतु 28/09/2028	शुक्र 28/09/2034	सूर्य 28/09/2044	चंद्र 29/09/2051	मंगल 28/09/2069

गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष
28/09/2069	28/09/2085	29/09/2104	29/09/2121	29/09/2128
28/09/2085	29/09/2104	29/09/2121	29/09/2128	00/00/0000
गुरु 16/11/2071	शनि 01/10/2088	बुध 26/02/2107	केतु 25/02/2122	शुक्र 29/01/2132
शनि 30/05/2074	बुध 11/06/2091	केतु 23/02/2108	शुक्र 28/04/2123	सूर्य 29/01/2133
बुध 04/09/2076	केतु 20/07/2092	शुक्र 24/12/2110	सूर्य 02/09/2123	चंद्र 29/09/2134
केतु 11/08/2077	शुक्र 20/09/2095	सूर्य 30/10/2111	चंद्र 02/04/2124	मंगल 30/11/2135
शुक्र 11/04/2080	सूर्य 01/09/2096	चंद्र 31/03/2113	मंगल 30/08/2124	राहु 29/11/2138
सूर्य 28/01/2081	चंद्र 02/04/2098	मंगल 28/03/2114	राहु 17/09/2125	गुरु 08/09/2140
चंद्र 30/05/2082	मंगल 12/05/2099	राहु 14/10/2116	गुरु 24/08/2126	00/00/0000
मंगल 06/05/2083	राहु 19/03/2102	गुरु 20/01/2119	शनि 03/10/2127	00/00/0000
राहु 28/09/2085	गुरु 29/09/2104	शनि 29/09/2121	बुध 29/09/2128	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शुक्र 8 वर्ष 0 मा 17 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

शुक्र - बुध 28/09/2024 30/07/2027	शुक्र - केतु 30/07/2027 28/09/2028	सूर्य - सूर्य 28/09/2028 16/01/2029	सूर्य - चंद्र 16/01/2029 17/07/2029	सूर्य - मंगल 17/07/2029 22/11/2029
बुध 22/02/2025 केतु 23/04/2025 शुक्र 12/10/2025 सूर्य 03/12/2025 चंद्र 27/02/2026 मंगल 29/04/2026 राहु 01/10/2026 गुरु 16/02/2027 शनि 30/07/2027	केतु 24/08/2027 शुक्र 03/11/2027 सूर्य 24/11/2027 चंद्र 30/12/2027 मंगल 23/01/2028 राहु 27/03/2028 गुरु 23/05/2028 शनि 30/07/2028 बुध 28/09/2028	सूर्य 03/10/2028 चंद्र 13/10/2028 मंगल 19/10/2028 राहु 04/11/2028 गुरु 19/11/2028 शनि 06/12/2028 बुध 22/12/2028 केतु 28/12/2028 शुक्र 16/01/2029	चंद्र 31/01/2029 मंगल 10/02/2029 राहु 10/03/2029 गुरु 03/04/2029 शनि 02/05/2029 बुध 28/05/2029 केतु 08/06/2029 शुक्र 08/07/2029 सूर्य 17/07/2029	मंगल 25/07/2029 राहु 13/08/2029 गुरु 30/08/2029 शनि 19/09/2029 बुध 07/10/2029 केतु 15/10/2029 शुक्र 05/11/2029 सूर्य 11/11/2029 चंद्र 22/11/2029
सूर्य - राहु 22/11/2029 17/10/2030	सूर्य - गुरु 17/10/2030 05/08/2031	सूर्य - शनि 05/08/2031 17/07/2032	सूर्य - बुध 17/07/2032 23/05/2033	सूर्य - केतु 23/05/2033 28/09/2033
राहु 10/01/2030 गुरु 23/02/2030 शनि 16/04/2030 बुध 02/06/2030 केतु 21/06/2030 शुक्र 15/08/2030 सूर्य 31/08/2030 चंद्र 28/09/2030 मंगल 17/10/2030	गुरु 25/11/2030 शनि 10/01/2031 बुध 20/02/2031 केतु 09/03/2031 शुक्र 27/04/2031 सूर्य 12/05/2031 चंद्र 05/06/2031 मंगल 22/06/2031 राहु 05/08/2031	शनि 29/09/2031 बुध 17/11/2031 केतु 07/12/2031 शुक्र 03/02/2032 सूर्य 20/02/2032 चंद्र 20/03/2032 मंगल 10/04/2032 राहु 01/06/2032 गुरु 17/07/2032	बुध 30/08/2032 केतु 17/09/2032 शुक्र 08/11/2032 सूर्य 23/11/2032 चंद्र 19/12/2032 मंगल 06/01/2033 राहु 22/02/2033 गुरु 04/04/2033 शनि 23/05/2033	केतु 31/05/2033 शुक्र 21/06/2033 सूर्य 28/06/2033 चंद्र 08/07/2033 मंगल 16/07/2033 राहु 04/08/2033 गुरु 21/08/2033 शनि 10/09/2033 बुध 28/09/2033
सूर्य - शुक्र 28/09/2033 28/09/2034	चंद्र - चंद्र 28/09/2034 30/07/2035	चंद्र - मंगल 30/07/2035 28/02/2036	चंद्र - राहु 28/02/2036 29/08/2037	चंद्र - गुरु 29/08/2037 29/12/2038
शुक्र 28/11/2033 सूर्य 16/12/2033 चंद्र 16/01/2034 मंगल 06/02/2034 राहु 02/04/2034 गुरु 21/05/2034 शनि 17/07/2034 बुध 07/09/2034 केतु 28/09/2034	चंद्र 24/10/2034 मंगल 11/11/2034 राहु 26/12/2034 गुरु 05/02/2035 शनि 25/03/2035 बुध 07/05/2035 केतु 25/05/2035 शुक्र 15/07/2035 सूर्य 30/07/2035	मंगल 11/08/2035 राहु 12/09/2035 गुरु 11/10/2035 शनि 13/11/2035 बुध 14/12/2035 केतु 26/12/2035 शुक्र 31/01/2036 सूर्य 10/02/2036 चंद्र 28/02/2036	राहु 20/05/2036 गुरु 01/08/2036 शनि 27/10/2036 बुध 13/01/2037 केतु 13/02/2037 शुक्र 16/05/2037 सूर्य 12/06/2037 चंद्र 28/07/2037 मंगल 29/08/2037	गुरु 02/11/2037 शनि 18/01/2038 बुध 28/03/2038 केतु 25/04/2038 शुक्र 15/07/2038 सूर्य 09/08/2038 चंद्र 18/09/2038 मंगल 17/10/2038 राहु 29/12/2038

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	7
भाग्यांक	2
मित्र अंक	2, 3, 6, 7
शत्रु अंक	4, 5, 8
शुभ वर्ष	25,34,43,52,61
शुभ दिन	गुरु, रवि, मंगल
शुभ ग्रह	गुरु, सूर्य, मंगल
मित्र राशि	कर्क, धनु
मित्र लग्न	कर्क, धनु, कुम्भ
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	मूंगा
शुभ उपरत्न	संगमूंगी
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	रक्त
शुभ दिशा	दक्षिण
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	केसर, कस्तूरी, रक्तचन्दन
दान अन्न	मल्का
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
माणिक्य	सूर्य	95%	सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	88%	भाग्योदय
पुखराज	गुरु	86%	भाग्योदय, कम खर्च
मूंगा	मंगल	83%	स्वास्थ्य, दुर्घटना से बचाव
मोती	चंद्र	78%	स्वास्थ्य, सुख
नीलम	शनि	73%	व्यावसायिक उन्नति, धनार्जन
हीरा	शुक्र	47%	ग्रह कलेश, धन हानि, दाम्पत्य कष्ट
गोमेद	राहु	38%	पराक्रम हानि, शत्रु व रोग
पन्ना	बुध	6%	शत्रु व रोग, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शुक्र	28/09/2028	82%	66%	83%	19%	86%	61%	79%	50%	94%
सूर्य	28/09/2034	100%	84%	89%	6%	92%	22%	61%	12%	75%
चंद्र	28/09/2044	100%	91%	83%	19%	86%	47%	73%	12%	75%
मंगल	29/09/2051	100%	84%	96%	0%	92%	47%	73%	12%	94%
राहु	28/09/2069	82%	66%	71%	6%	86%	55%	79%	56%	75%
गुरु	28/09/2085	100%	84%	89%	0%	98%	22%	73%	38%	88%
शनि	29/09/2104	82%	66%	71%	19%	86%	55%	86%	50%	75%
बुध	29/09/2121	100%	66%	83%	31%	86%	55%	73%	38%	88%
केतु	29/09/2128	82%	66%	89%	6%	86%	55%	61%	12%	100%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027	23/02/2028-08/08/2029	05/10/2029-17/04/2030
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029	17/04/2030-31/05/2032	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061	13/02/2062-07/03/2062	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
अष्टम स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073	23/10/2073-16/01/2076	11/07/2076-11/10/2076

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	20/03/2084-21/05/2086	21/05/2086-08/02/2087	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	21/05/2086-21/05/2086	08/02/2087-18/07/2088	31/10/2088-05/04/2089
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	18/07/2088-31/10/2088	05/04/2089-19/09/2090	25/10/2090-21/05/2091
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/07/2093-18/08/2095	-----	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	03/12/2102-29/11/2105	-----	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

फल

अशुभ
अशुभ
शुभ
अशुभ
अशुभ

क्षेत्र

कम खर्च
बुरा स्वास्थ्य
धन
सुख हानि
दुर्घटना

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल लग्न में स्थित है। अतः जन्मकुण्डली के अनुसार आप मांगलिक हैं परन्तु शास्त्रानुसार आपके मंगली दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः ऐसे मंगल से आपको शुभ फलों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होगी तथा अशुभ फलों का प्रभाव जीवन में अल्प ही रहेगा। इस प्रकार आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं शरीर में दुर्बलता का अभाव रहेगा। परन्तु यदा कदा आपके स्वभाव में क्रोध के भाव की प्रबलता भी दृष्टि गोचर होगी। मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब तो हो सकता है परन्तु विवाह प्रक्रिया अत्यन्त ही सुखद वातावरण में सम्पन्न होगी। आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा परन्तु विवाहोपरान्त यदा कदा पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। फलतः कभी कभी वे शारीरिक रूप से अस्वस्थता की अनुभूति कर सकती हैं।

आपकी कुंडली में लग्न में स्थित मंगल की दृष्टि सुख भाव पर होने से आप जीवन में आवश्यक सुखोपभोग के संसाधनों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे परन्तु इसमें आपको परिश्रम अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। सप्तम भाव पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। समय समय पर आपसी असहमति के कारण वाद विवाद भी होते रहेंगे फलस्वरूप परस्पर प्रेम पूर्ण संबंधों में अल्प समय के लिए तनाव उत्पन्न होगा। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ती है अतः शारीरिक कुशलता पूर्ण रूप से रहेगी। कभी कभी अनावश्यक विघ्न बाधाएं कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करेंगी जिससे आप मानसिक रूप से उद्विग्नता की अनुभूति करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं शान्ति पूर्वक व्यतीत होगा तथा जीवन में आप पूर्ण रूप से सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखद एवं शुभ बनाने के लिए तथा मंगल के प्रभाव को और अधिक अनुकूल करने के लिए आपको किसी गैरमांगलिक कन्या का या ऐसी मंगली कन्या जिसका शास्त्रानुसार उचित रूप से मंगल का दोष भंग हो रहा हो उससे विवाह का प्रस्ताव करना चाहिए। इस प्रकार

समस्त दोषों का निवारण करके यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रारम्भ करेंगे तो इससे आपका जीवन अत्यन्त ही सुखमय एवं आनन्द पूर्वक व्यतीत होगा। साथ ही जीवन में समस्त आवश्यक सुख साधनों की इच्छित प्राप्ति होगी एवं आर्थिक क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ता रहेगी तथा धन धान्य एवं ऐश्वर्य से सर्वदा सुशोभित रहेंगे। आप एक सौभाग्य शाली पुरुष होंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को अपने भाग्यबल एवं आवश्यक परिश्रम से सफल बना कर दाम्पत्य जीवन को शान्ति एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करेंगे। इसके अतिरिक्त जिस कन्या की कुंडली में मंगल की स्थिति प्रथम भाव में हो तो ऐसी कन्या के साथ दाम्पत्य जीवन का प्रारम्भ नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रथम भावस्थ मंगल की स्थिति से कन्या का शारीरिक स्वास्थ्य विशेष अच्छा नहीं रहेगा जिससे सांसारिक तथा सामाजिक कार्यों को सम्पन्न करने में अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न होंगी एवं दाम्पत्य सुख में भी व्यवधान उत्पन्न होंगे अतः सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इसकी यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही कुंडली मिलान के समय में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए तथा सतर्कतापूर्वक अन्तिम निष्कर्ष लेना चाहिए जिससे भावी दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न न हों एवं जीवन सुख एवं शान्तिपूर्वक व्यतीत हो सके।

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- नवम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में गुरु के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें । विद्यालय में पुस्तकों का दान करें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

पंचमभाव में सूर्य हो तो जातक अल्पसन्तितिवान्, बुद्धिमान्, सदाचारी, रोगी, दुखी, शीघ्र क्रोधी एवं वंचक होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, क्रोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति पंचम भाव में है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे एवं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही उनकी आयु भी दीर्घ होगी। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा सुसम्पन्न रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपकी यथाशक्ति सहायता करते रहेंगे। आपकी सन्तति के प्रति भी वे स्नेहशील रहेंगे तथा उनके पालन में अपनी पूर्ण रुचि प्रदर्शित करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं आदर का भाव रहेगा एवं उनकी आज्ञा का पालन भी आप करते रहेंगे। आपके परस्पर संबंध भी मधुर रहेंगे लेकिन यदा कदा आपसी मतभेदों में विभिन्नता होने से संबंधों में कटुता भी आएगी परन्तु कुछ समय बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही जीवन में आप उनका पूरा ध्यान रखेंगे एवं उनकी आर्थिक तथा अन्य सहायता करने के लिए भी उद्यत रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

लग्न (प्रथम) में चन्द्रमा हो तो जातक बलवान्, सुखी, स्थूलशरीर, गान वाद्य प्रिय, ऐश्वर्यशाली, व्यवसायी, उदार, धनी एवं विद्वान होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन, आत्माभिमानी एवं साहसी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति लग्न में विद्यमान है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य आपके ग्रहों के शुभप्रभाव से अच्छा रहेगा एवं वे लम्बी आयु प्राप्त करेंगी। धन सम्पत्ति की भी उनको प्राप्ति होगी तथा इससे वे प्रायः युक्त ही रहेंगी। आपके प्रति उनका पूर्ण स्नेह भाव रहेगा एवं जीवन में सभी शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको यथोचित सहयोग तथा सहायता प्रदान करती रहेंगी। आपके परस्पर अच्छे संबंध रहेंगे एवं आपसी मतभेदों की अल्पता रहेगी।

आप भी उनके प्रति हार्दिक सम्मान तथा आदर की भावना रखेंगे तथा उनकी आज्ञा पालन के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। इससे आप लोगों के आपसी विश्वास में वृद्धि होगी जो भविष्य में उन्नति दायक रहेगी। इस प्रकार आप भी जीवन में उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

मंगल

लग्न (प्रथम) में मंगल हो तो जातक, चपल, क्रूर, महत्वाकांक्षी, विचार रहित, गुप्तरोगी, उतावला, लौहधातु एवं व्रणजन्य, कष्ट से युक्त, व्यवसायहानि, दुर्घटना की सम्भावना, दुःखी, निर्धन एवं साहसी होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आपके जन्म काल में मंगल प्रथम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता उनमें परिलक्षित होगी। धन धान्य से वे प्रायः सुसम्पन्न ही दौरान आपकी- प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा एवं जीवन में आपको प्रायः अपना आधिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

आप भी उनको हृदय से चाहेंगे तथा उनकी वांछित सहायता एवं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर ही होंगे परन्तु यदा कदा मतभेद के कारण संबंधों में कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा लेकिन यह अल्प समय के लिए ही रहेगा उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस प्रकार मध्यम रूप से आप एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते रहेंगे।

बुध

षष्ठभाव में बुध हो तो जातक विवेकी, कलहप्रिय, वादी, रोगी, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी, दुर्बल एवं स्त्रीप्रिय होता है।

कन्या राशि में बुध हो तो जातक वक्ता, कवि, साहित्यिक, लेखक, सम्पादक, ज्योतिषी, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, उदार, सुखी एवं अच्छा चरित्र वाला होता है।

गुरु

नवमभाव में गुरु हो तो जातक पराक्रमी, धर्मात्मा, पुत्रवान, बुद्धिमान, राजपूज्य, तपस्वी, विद्वान्, योगी, वेदान्ती, यशस्वी, भक्त, भाग्यवान् संन्यास की ओर प्रवृत्ति एवं प्रचुर सन्तान होता है।

धनु राशि में गुरु हो तो जातक धनी, प्रभावशाली, विद्वान्, विश्वस्त, सज्जन, दानशील संगठनकर्ता, अच्छा वक्ता, धर्माचार्य, दम्भी, रतिप्रेमी एवं धूर्त होता है।

शुक्र

चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक बलवान्, परोपकारी, सुन्दर, व्यवहार कुशल, विलासी, दीर्घायु, पुत्रवान्, भाग्यवान्, सुखी, दानी, वाहनों का स्वामी एवं आस्तिक होता है।

कर्क राशि में शुक हो तो जातक धार्मिक, ज्ञाता, सुन्दर, सुख और धन का इच्छुक, नीतिज्ञ, आवेशपूर्ण, डरपोक, दुःखी एवं प्रचुर सन्तान होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

मकर राशि में शनि हो तो जातक कुशा बुद्धि, परिश्रमी, आस्तिक भोगी, मिथ्याभाषी, शिल्पकार, प्रवासी, अच्छा घरेलू जीवन, विद्वान्, सन्देह करनेवाला, बदला लेने वाला एवं दार्शनिक होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराक्रमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

मिथुन राशि में राहु हो तो जातक- साहसी, दीर्घायु, साधु गाने वाला, योगाभ्यासी एवं बलवान् होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

धनु राशि में केतु हो तो जातक चंचल, धूर्त एवं मिथ्यावादी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- शुक्र
(07/09/2020 - 28/09/2028)

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 07/09/2020 को आरम्भ और 28/09/2028 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है। यह मीन राशि में उच्च का और कन्या में निम्न का होता है। यह स्वभाव से एक शुभ ग्रह है जो भावनात्मक आनन्द, अच्छे स्वाद आनन्द तथा सुखमय जीवन का द्योतक है। यह विवाह का कारक भी है। आपकी जन्म कुण्डली के चतुर्थ भाव में स्थित इस ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर है और इस भाव पर इसका शुभ प्रभाव पड़ रहा है। चतुर्थ भाव माता, भवन, घरेलू वातावरण, निजी मामलों, गुप्त जीवन, वाहन, उद्यान, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, जल, दूध, नदी तथा झील का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित है और भाव को प्रबलित कर रहा है जो सुख स्थान का भाव है। इसके फलस्वरूप इस दशा काल में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना नहीं होगी तथा आप सामान्य रूप से जीवन का आनन्द लेंगे।

अर्थ-संपत्ति :

शुक्र चतुर्थ भाव में भाव को प्रबलित कर रहा है। यह अचल संपत्ति और वाहन का भाव भी है। इस दशा काल में आप एक नया घर या नई गाड़ी ले सकते हैं। आपकी जीवन चर्या में उन्नति तथा आनन्द में वृद्धि होगी।

व्यवसाय :

शुक्र, एक योग कारक ग्रह, चतुर्थ भाव में स्थित है और आपकी जन्म कुण्डली के दशम भाव को देख रहा है, जो जीवन चर्या और व्यसाय का द्योतक है। इस दशा काल में आप जमीन-जायदाद के लेन-देन में व्यस्त रहेंगे और इसी से संबंधित व्यवसाय करेंगे। आपकी माता भी आपके व्यावसायिक जीवन को विकसित करने में सहायक होंगी।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण होगा। आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आप भावुक होने के साथ-साथ धनवान, आदरणीय, और खुशहाल होंगे। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर होगा तथा आप परम्परा और मूल्यों का आदर करेंगे।



Divya_drishti.astro

Ratlam

7000558136

महादशा :- सूर्य
(28/09/2028 - 28/09/2034)

सूर्य की महादशा 28/09/2028 को आरम्भ होगी और 6 वर्ष के बाद 28/09/2034 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य पंचम भाव में स्थित है। सूर्य आत्मा, शासन, विद्युत और प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम भाव शिक्षा, संतान तथा बुद्धि का सूचक है। अतः इस दशा में आपको संतान से सुख मिलेगा। आपकी मंत्र शास्त्र में रुचि रहेगी और आपको प्रतिष्ठा तथा सफलता प्राप्त होगी।

स्वास्थ्य :

आज का ग्रह सूर्य आपको उत्तम स्वास्थ्य और शक्ति देगा। आपका स्वास्थ्य आम तौर से उत्तम रहेगा। सूर्य आपको कान्ति तथा जीवन-शक्ति देगा। आपकी इच्छा-शक्ति उत्तम होगी और आपका बल तथा व्यक्तित्व सुन्दर होंगे। मानसिक स्तर पर भी आप मजबूत होंगे और आप में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा रहेगा। आप महत्वाकांक्षी तथा अन्तर्दर्शी होंगे। आपको ताप-संबंधी रोगों, मामूली पित्तदोष तथा पाचन-संबंधी पीड़ाओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। शुद्ध भोजन तथा अन्य गतिविधियां आवश्यक हैं।

अर्थ :

इस दशा के दौरान आपको सट्टे व निवेश से। धन तथा जीवन की सारी सुख-सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। आप भाग्यशाली और समृद्ध होंगे। आपको अपने व्यवसाय या व्यापार में कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। एकादश भाव पर सूर्य की दृष्टि के कारण आपको पिता से धन प्राप्ति होगी।

व्यवसाय :

आपको कोई शक्तिशाली तथा अधिकारिक पद मिल सकता है। आप सलाहकार का कार्य करेंगे। आपकी जीवन वृत्ति से संबद्ध अचानक कुछ घटनाएं घट सकती हैं। कोई भी घटना आपके लिये लाभदायक होगी। आपको अधिक प्रयास किये बगैर सफलता मिलेगी, आप उच्च पद प्राप्त करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नौकरीपेशा लोगों का स्थानान्तरण हो सकता है या वे यात्रा पर जा सकते हैं जो अन्ततः उनके लिये लाभदायक होंगे। व्यापार और व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। जहाँ तक आपकी नौकरी और कार्य का प्रश्न है, यह दशा आपके लिए अति उत्तम है जिसमें आपको लाभ और शक्ति की प्राप्ति होगी और आप प्रभावशाली होंगे।

पारिवारिक जीवन :

आपके बच्चे समृद्धिशाली होंगे और आपको उनसे सुख प्राप्त होगा। आपकी क्रियाएं सुखकर होंगी,। आपके अनेक मित्र होंगे क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से उदार हैं, आपका स्वाभाव अच्छा है और आप निष्कपट तथा समाज के प्रति निष्ठावान हैं। आपको अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी को उच्च पद, सरकार से लाभ तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। आपके पिता के भाग्य में वृद्धि होगी। उनकी आध्यात्मिक तथा दान पुण्य के कार्यों में रुचि हो सकती है। आपके छोटे-भाई-बहनों को साहित्य अथवा संवादपटुता के क्षेत्र में लाभ

हो सकता है और उन्हें सारी सुख-सुविधाएं मिलेंगी। आपके बड़े भाई-बहनों को साझेदारी में लाभ मिलेगा और वे पारिवारिक मामलों में शामिल होंगे। उनके साथ आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे।

शिक्षा :

आपकी अध्यात्म तथा वेदान्त दर्शन में रुचि होगी। आपकी मंत्र शास्त्र तथा विज्ञान के विषयों में भी रुचि होगी।



अंतर्दशा :- सूर्य - सूर्य
(28/09/2028 - 16/01/2029)

आपके लिए सूर्य की महादशा 28/09/2028 को प्रारंभ हो रही है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 3 मास 18 दिन होकर 16/01/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा का स्वामी सूर्य पिता, अधिकार, शक्ति, नाम, प्रसिद्धि, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अंतर्दशा में आप सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे। शेयर इत्यादि में भी लाभ संभव है। संतान पढ़ाई आदि में नाम कमाएगी। आपको उच्चपद की प्राप्ति हो सकती है या सलाहकार के पद पर कार्य कर सकते हैं। मंत्र, योग, धार्मिक प्रवचनों आदि में रुचि बढ़ेगी।

आपके पिता के लिए समय भाग्यशाली है। उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। वे अध्यात्म में रुचि लेंगे। माता को जायदाद प्राप्त हो सकती है। आपके भाई-बहनों के लिए समय संतोषजनक है। जीवनसाथी की आय बढ़ेगी। मामा के परिवार में खर्चा बढ़ सकता है।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छोटी-मोटी शिकायतें जैसे बुखार, पेट की खराबी आदि से बचाव करना हितकर रहेगा। भाग्यसंवर्धन के लिए रविवार के दिन सूर्योदय के समय गेहूं, लाल-पुष्प और चंदन आदि का दान करें।

अंतर्दशा :- सूर्य - चन्द्र
(16/01/2029 - 17/07/2029)

आपकी सूर्य की महादशा 28/09/2028 को प्रारंभ हुई थी। इसमें दूसरी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 6 मास है और यह 17/07/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मष्तिष्क, घर, माता और सौंदर्य का कारक है।

इस अंतर्दशा की अवधि में आपके स्वास्थ्य और धन की स्थिति उत्तम रहेगी। मान, सम्मान और साख उत्तम रहेंगे। पारिवारिक स्थिति प्रसन्नतापूर्ण रहेगी। माता के साथ संबंध मधुर होंगे। माता को लोकप्रियता और सफलता मिलेगी। आप निवास या व्यवसाय/नौकरी में परिवर्तन करना चाहेंगे। जीवन में उत्थान होगा, संपर्कों के कारण धन आएगा। संतान सुखदायी होगी। उनका भाग्य चमकेगा। आपकी रुचि कला में बढ़ेगी। ज्योतिष, दर्शन और भाषाओं में भी मन लगेगा। नौकरी में लगे व्यक्तियों के लिए समय परिवर्तन का रहेगा। व्यापारियों के खर्च बढ़ेंगे। सलाहकारों के लिए समय उत्तम है। आपका विवाह हो सकता है। अगर विवाहित हैं तो पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा।

मिजाज में अकस्मात परिवर्तन, श्वसनत्र की व्याधियों और अल्पनिद्रा से सावधान रहें। अशुभत्व से बचाव के लिए चंद्रमा के मंत्र का जाप करें।

ॐ सौं सोमाय नमः

**अंतर्दशा :- सूर्य - मंगल
(17/07/2029 - 22/11/2029)**

आपकी सूर्य की महादशा 28/09/2028 को प्रारंभ हो रही है। इसमें तृतीय अंतर्दशा मंगल की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन है। यह अंतर्दशा 22/11/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, ऊर्जा और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप उद्यमशील और सक्रिय रहेंगे। धन और भूमि प्राप्त करेंगे और सामान्यतः सफल रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे। सेवारत जातकों के लिए लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। परामर्शदाताओं के लिए यह समय व्यस्त और क्रियात्मक रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों के खर्च बढ़ सकते हैं। साझेदारी में समस्याएं आ सकती हैं और अनुबंध फलान्वित नहीं भी हो सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। माता का व्यवहार सुखदायी रहेगा। आपकी संतान शिक्षा में प्रगति करेगी और प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करेगी। विशेषतः विज्ञान और गणित के विद्यार्थी उत्तम अंक प्राप्त करेंगे। आपके भाई-बहन धनवान बनेंगे।

मामा पक्ष के लोग जायदाद क्रय कर सकते हैं। आपके जीवनसाथी कभी-कभी कटुवचनों का प्रयोग कर सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ज्वर, फुंसी आदि मामूली शिकायतें हो सकती हैं। शुभत्व की वृद्धि हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - राहु
(22/11/2029 - 17/10/2030)**

आपके लिए सूर्य की महादशा 28/09/2028 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 22/11/2029 को प्रारंभ होकर 17/10/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

यह अवधि आपके लिए भाग्यशाली रहेगी। आपका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति उत्तम होंगे; बहुत से मित्र होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे क्योंकि आप साहसी और दृढ़प्रतिज्ञ हैं। संचार साधन, लेखन, प्रकाशन आदि लाभदायक रहेंगे। पड़ोसी और बांधवों से लाभ होगा।

आपके पिता के व्यापार में वृद्धि होगी। आपके उनसे संबंध मधुर रहेंगे। माता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपके भाई-बहनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शत्रुओं पर विजय होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी और निवेश से लाभ होगा। आपकी संतान का समय उत्तम होगा; वे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे, उनके बहुत से मित्र होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्य में व्यस्त रहेंगे। परामर्शदाताओं को प्रतिस्पर्धी परेशान कर सकते हैं। व्यापारी लाभ कमाएंगे। यह समय भाग्यशाली रहेगा। गले या कान की मामूली समस्याओं से सावधान रहें। शुभत्व में वृद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा और पाठ

करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु
(17/10/2030 - 05/08/2031)**

आपके लिए सूर्य की महादशा 28/09/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 17/10/2030 को प्रारंभ होकर 05/08/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अवधि में आप सुख-समृद्धि और मान-सम्मान से युक्त रहेंगे। लंबी यात्रा, ज्ञान प्राप्ति या अध्यापन के अवसर मिलेंगे। किसी विशेष विषय में रुचि उत्पन्न हो सकती है। संतान से सुख, सहायता प्राप्त होंगे। सट्टेबाजी और निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। समाज और व्यापार जगत में सम्मान मिलेगा।

जीवनसाथी की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, मुकदमे में विजय होगी। आपके पिता को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें शत्रुओं पर विजय मिलेगी। आपके भाई-बहनों को धनलाभ होगा, भागीदारी होगी और समृद्धि आएगी। आपकी संतान की कार्यशक्ति उत्तम रहेगी और शिक्षा उत्तम होगी।

अगर आप सेवारत हैं तो धनसंचय करेंगे। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे और यात्राएं होंगी। व्यापारी भाग्यवान रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कूल्हे की व्याधि, ज्वर और बदहजमी से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए बृहस्पति के मंत्र का जाप करें।

ॐ बृं बृहस्पतये नमः